



बिजनौर पुलिस

Date:- 22-06-2022



**PRESS
NOTE**



थाना शिवाला कलां व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध कार्यवाही में 50 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित 01 अभि० गिरफ्तार । मौके पर 250 ली० लाहन नष्ट किया गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण/ब्रिकी एवं परिवहन



करने वाले अभियुक्तगणों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी चाँदपुर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 22.06.2022 को मुखबिर की सूचना पर थाना शिवाला कलां पुलिस व आबकारी टीम द्वारा जुझेला के जंगल में ईख के खेत में अभियुक्त खुशपाल पुत्र हरीराम निवासी रखेडा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा

को शराब की कशीदगी करते हुए 50 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर 250 लीटर लाहन को नष्ट किया गया, जिसके सम्बंध में थाना हाजा पर मु०अ०स० 115/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त का नाम व पता

खुशपाल पुत्र हरीराम निवासी रखेडा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा

बरामदगी का विवरण

50 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास -

1-मु०अ०स० 115/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना शिवाला कलां।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1-उ०नि० श्री ब्रजराज थाना शिवाला कलां, 2-का० 2341 मौ० सिराज थाना शिवाला कलां 3- आबकारी हेका० राजेन्द्र सिंह क्षेत्र नं० 04 चाँदपुर। 4-आबकारी का० वीरप्रताप सिंह क्षेत्र नं० 04 चाँदपुर। 5-आबकारी का० रोहित कुमार क्षेत्र नं० 04 चाँदपुर।

थाना हल्दौर:- थाना हल्दौर पुलिस द्वारा पर 01 नफर वारंटी अभियुक्त इकबाल उर्फ पप्पू पुत्र इतने हसन निवासी ग्राम नागंलजट थाना हल्दौर को वाद स0-300/18 धारा 60/62 आबकारी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय **ACJM-1** महोदय के समक्ष पेश किया गया ।





बिजनौर पुलिस



नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना मंडावर:- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



थाना कोतवाली शहर:- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।

